

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

कोटेशन आमंत्रण पत्र (द्वितीय कॉल)

क्रमांक/ एफ.जे.यू./यंत्रि/2022/047

दिनांक: - 29/03/2022

प्रति,

Online

विषय :- जी.वि.वि. के विधि संस्थान में सहा. प्राध्यापक कक्ष की खिडकियों में एल्युमीनियम पार्टीशन, वॉटनी अ0शाला0 में स्थित डॉ. सुशील मंडेरिया जी कक्ष में फॉलसीलिंग एवं कुलसचिव कार्यालय में फर्श पर पी.व्ही.सी. विनायल फ्लोरिंग कार्य करायें जाने वावत।

महोदय,


जी.वि.वि. के विधि संस्थान में सहा. प्राध्यापक कक्ष की खिडकियों में एल्युमीनियम पार्टीशन, वॉटनी अ0शाला0 में स्थित डॉ. सुशील मंडेरिया जी कक्ष में फॉलसीलिंग एवं कुलसचिव कार्यालय में फर्श पर पी.व्ही.सी. विनायल फ्लोरिंग कार्य करायें जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं, कृपया अपनी दरें दिनांक 12-04-2022 तक सील बंद लिफाफे में कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के पते पर भेजें। लिफाफे पर कुटेशन एवं कार्य का नाम तथा अंतिम तिथि आवश्यक रूप से अंकित करें।

सं. क्र.	एस.ओ.आर.क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर
01	11.69	Providing and fixing 2 mm thick heterogeneous PVC (poly vinyl flooring) EN (European Standard) with wear layer is 0.55mm thick of PVC, total weight is 2300 g/m2 approx. PUR (polyurethane reinforced), residual indentation approx.0.05 mm, castor wheel test qualified, dimensional stability $\leq 0.10\%$, static electrical charge $< 2kv$, all vinyl sheets must be linked crosswise with a continuous copper strip and finally connected to earth for grounding electrostatic electrical charges. good resistance to scratch, slip, chemical and fire, doesn't favour in growth of fungi & bacteria. 100% recyclable (eco-freindly). Low VOC emissions after 28days of installation (lower than $\leq 10\mu g/m^3$). phthalate free technology. directional in design.The floor finish should termite free at the room perimeter passing over a concealed cove forming and continuing up on the wall upto100mm. Recommended to use in area like Patient rooms , Doctor room Lecturer room, Kids area, School, Colleges, Residential and all commercial official scope etc.	21.68 sqm	
02	12.48.2	Providing and fixing GI Clip in Metal Ceiling System of 600x600 mm module which includes providing and fixing 'C' wall angle of size 20x30x20mm made of 0.5mm thick pre painted steel along the perimeter of the room with help of nylon sleeves and wooden screws at 300mm center to centre, suspending the	18.90 sqm	

		main C carrier of size 10x38x10mm made of G.I steel 0.7 mm thick from the soffit and ceiling with help of soffit cleat 37x27x25x1.6 mm, rawl plugs of size 38x12 mm and C carrier suspension clip and main carrier bracket at 1000mm c/c. Inverted triangle shaped Spring Tee having height of 24 mm and width of 34mm made of GI steel 0.45 mm thick is then fixed to the main C carrier and in direction perpendicular to it at 600mm centers with help of suspension brackets. Wherever the main C carrier and spring T have to join, C carrier and spring T connectors have to be used. All sections to be galvanized @ 120 gms/sqm (both side inclusive) Fixing with clip in/swing down tiles into spring 'T' with GI Metal Ceiling Clip in /swing down plain Beveled edge global white color tiles of size 600x600 and 0.5mm thick with 25mm height, made of G I sheet having galvanizing of 100 gms/sqm (both sides inclusive) and 20% perforation area with 1.8mm dia holes and having NRC of 0.5, electro statically polyester powder coated of thickness 60 microns (minimum), including factory painted after bending and perforation.		
03.	21.1.2.2	Providing and fixing aluminium work for doors, windows, ventilators and partitions with extruded built up standard tubular sections/ appropriate Z sections and other sections of approved make conforming to IS: 733 and IS: 1285, fixing with dash fasteners of required dia and size, including necessary filling up the gaps at junctions, i.e. at top, bottom and sides with required EPDM rubber/ neoprene gasket etc. Aluminium sections shall be smooth, rust free, straight, mitred and jointed mechanically wherever required including cleat angle, Aluminium snap beading for glazing / paneling, C.P. brass / stainless steel screws, all complete as per architectural drawings and the directions of Engineer-in-charge. (Glazing, paneling and dash fasteners to be paid for separately) :	8.73.00	k.g
04.	21.3.1	Providing and fixing glazing in aluminium door, window, ventilator shutters and partitions etc. with EPDM rubber/ neoprene gasket etc. complete as per the architectural drawings and the directions of engineer-in-charge. (Cost of aluminium snap beading shall be paid in basic item) :	1.40	sqm


शर्त :-

1. सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
2. फर्म के नाम पैन नम्बर/टिन नम्बर/जी.एस.टी.नम्बर होना आवश्यक है।
3. कुटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलसचिव विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
4. कुटेशन अंतिम लिथि तक वि.वि. में रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हो जाने चाहिये


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान संजय बरथरिया की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत है।


वि.वि.यंत्री